

॥ श्री ॥

शौतम पूछा

धर्म अधर्म का

(जैन पर से उद्धृत)

अनुवादक

मुनी श्री यतीन्द्रविजय जी

प्रकाशक

सेठ सरूपचन्द हुकम्राजी

जासेलगढ़वाले

— ० —

कन्नूजी माटूमल एण्ड सन्स के

आर्ट (एलेक्ट्रिक) प्रिंटिंग वर्क्स देहली

में

श्री धनपत सिंह मनसाली के प्रबन्ध से मुद्रित ।

द्वितीय बार ४०००] सन १९१६ [मूल्य भेट

मधु के बँद विषय में भटका, जीव गड़े में गिरता है,
 हाथी की भटकता, नीचे नागों से भी विरता है ।
 यह संसार वृक्ष है नश्वर, देखो मित्रों चित्र विचित्र,
 धार्मिक सस्था की सहाय कर, सचित करलो पुन्य पवित्र ।

16



सर्व महाशयों को उचित है कि धर्मिक सस्थाओं की
 सहायता करें ।

धर्म और अधर्म का फल ।

{ गौतम पृच्छा }

नमिउण नित्यनाहं, जाणतो तहा य गोयमो भयध
अवुद्धानाण वीहणत्थ, -धम्माधमफल । पुच्छ । १० ॥

भावार्थ—तीर्थनाथ सर्वज्ञ भगवान् 'श्री महावीरस्वामी' को नमस्कार कर गौतमस्वामी जानते हुए भी भव्यजीवों के हितार्थ धर्म और अधर्म का फल इस प्रकार पूछते हैं ।

१ प्रश्न—हे प्रभो ! किस कर्म से जीव नरक में जाते हैं ?

उत्तर—गौतम ! जो जीव एकेन्द्रिय-द्वेन्द्रिय आदि जीवों की हिंसा करते हैं, चुगलखोर

होते हैं, अदत्त (विना दी हुई वस्तु) ग्रहण करते हैं, परस्त्री गमन, चोरी, परनिन्दा, क्रोध, मान, माया और लोभ करते हैं, दुष्ट स्वभाव रखते हैं, असद्-वस्तुआ का व्यापार और साधु महात्माओं की निन्दा करते हैं, वे जीव मर कर नरक में जाते हैं, और ' सुभूमचक्रवर्ती ' की तरह दुःख के भाजन घनते हैं ।

२ प्रश्न- हे भगवन् ! किस कर्म से जीव स्वर्ग में जाते हैं ?

उत्तर-गौतम ! जो जीव यथाशक्ति तपस्या, व्रत, नियम पालन करते हैं सरल स्वभाव रखते हैं, सब जीवों का भला चाहते

हैं, गुरु जनों के वचन पर विश्वास रखते हैं; और सबके साथ सदाचारसे व्यवहार करते हैं वे, जीव मर कर स्वर्ग में जाते हैं। और आनन्द श्रावक, की तरह सुखी होने हैं।

३ प्रश्न--हे परमेश्वर ! किस कर्म से जीव तिर्यच होते हैं ?

उत्तर--गौतम ! जो जीव अपने स्वार्थ के वास्ते मित्रता रखते हैं और काम हो जाने के बाद मित्रता तोड़ देते हैं, मित्र के दोष निकालते हैं अथवा मित्र की निन्दा करते रहते हैं और असत्य कलंक देते हैं मित्र के साथ भेदभाव रखते हैं, मित्रद्रोह और माया स्थानों को सेवन करते हैं वे जीव मर कर

तिर्यंच होते हैं और 'अशोकदत्तकुवर' की तरह तिर्यंच गति का अनुभव करते हैं।

४ प्रश्न--हे जिनेश्वर ! किस कर्म से जीव मनुष्य होते हैं ?

उत्तर--गौतम ! जो जीव सरलस्वभावी, निरहंकारी, क्रोधरहित और न्यायवान होते हैं, सुपात्र को दान देते हैं, साधुजनों की प्रशंसा किया करते हैं, और किसी के साथ द्वेषभाव नहीं रखते वे जीव मर कर मनुष्य होते हैं और सागरचन्द्र की तरह अनेक मानुष्यभव सम्बन्धि सुख लीलाओं के भोगने वाले होते हैं।

५ प्रश्न--हे जगद्गुरु ! किस कर्म से मनुष्य स्त्रीपने उत्पन्न होते हैं ?

उत्तर-गौतम ! जो मनुष्य विशेष चपल स्वभाव रखते हैं, कदाग्रह किया करते हैं, मायावीस्वभाव रखते हैं, विश्वासघात करते हैं, लोगों को ठगना ही अपना कर्तव्य समझते हैं, वे मर कर स्त्रीपने उत्पन्न होते हैं और जन्मपर्यन्त पराधीनहो दुखी होते हैं ।

६ प्रश्न-हे सिलोकीनाथ ! किस कर्म से स्त्री पुरुषपने उत्पन्न होती हैं ?

उत्तर-गौतम ! जो स्त्री सन्तोष वाली, विनयवान, सरलचित्तवाली, और स्थिरस्वभाव (चित्त) वाली होती हैं, जो सत्यवचन बोलती हैं और कलह वगैरह नहीं करतीं वे मर कर पुरुषपने उत्पन्न होती हैं और अनेक सुखों को प्राप्त करती हैं ।

७ प्रश्न—हे सर्वज्ञ ! किम कर्म से जीव नपुंसक होते हैं ?

उत्तर—जो पुरुष घोड़ा बकरा इत्यादि जानवरों को बाधिया करते हैं, जानवरों के नाक कान आदि अवयवों को छेदन करते हैं, और जानवरों की वृत्ति छेद करते हैं वे परभव में नरकादि गतियों का अनुभव कर सर्वांग हीन (नपुंसक) होते हैं और 'गोत्रास' की तरह अनेक विटम्बना सहन करते हैं ।

८ प्रश्न—हे निष्कारणबन्धो ! किस कर्म से जीव अल्पायु होते हैं ।

उत्तर—गौतम ! जो पुरुष निर्दयपरिणामीहो जीवोंकी हिंसा करते हैं, परलोक को नहीं मानते

निन्दनीय कर्मों का आचरण करते हैं, देव गुरु और धर्म की अवहीलना (निन्दा) करते हैं वे अल्पायु बांधते हैं अर्थात् कम आयु वाले होते हैं।

६ प्रश्न—हे ऋषानिधे ! किस कर्म से जीव दीर्घायु होते हैं ?

उत्तर—गोतम ! जो जीवों की हिस्से नहीं करते दया परिणाम रखते हैं, दानादि देकर लोगों को हर्षित करते हैं, और देव गुरु धर्म की प्रशंसा करते हैं, वे जीव दीर्घायु होते हैं।

१० प्रश्न—हे स्वयंबुद्ध ! किस कर्म से जीव भोग रहित होते हैं ?

उत्तर—गोतम ! जो अपनी आत्मा से किसी को दान नहीं देते हैं, और क्लेश से किसी को देने में आ गया हो तो पीछा लेने

की इच्छा करते हैं तथा दूसरा कोई दान देता हो उसको रोकने का प्रयत्न करते हैं वे जीव भोग समृद्धि रहित होते हैं और धनसार की तरह बहुत क्लेशों के पात्र बनते हैं ।

११ प्रश्न-हे करुणानिधि ! किस कर्म से जीव भोगसमृद्धिवान् होते हैं ?

उत्तर--गौतम ! जो जीव आसन, पट्टिका संधारिया, पादप्रौद्यनक कम्बल वस्त्र, पात्र आदि चारित्र्योपकरण और शुद्धमान आहार पानी तथा रूप साधु अणुगार को वहिराते हैं और हीन दीन दु खियों को अनुकपादान महर्षि अर्पण करते हैं तथा जैनशासन की प्रभावना बढ़ाते हैं वे जीव भोगसमृद्धिवान् होते हैं ।

१२ प्रश्न-हे दीनोद्धारक ! किस कर्म से

जीव सौभाग्यवान् होते हैं ?

उत्तर—गौतम । जो देवगुरु धर्म आदि का विनय करते हैं, कड़वे वचन नहीं बोलते, धर्म निन्दा और मर्मवचनों का परित्याग करते हैं वे जीव सर्वजनवल्लभ (सौभाग्यवान्) होते हैं ।

१३ प्रश्न—हे भवनिस्तारक ! किस कर्म से जीव दुर्भागी होते हैं ?

उत्तर—गौतम । जो निर्गुणी अहंकारी होते हैं, गुणवान् और धैर्यवान्-तपस्वियों की निन्दा करते हैं, व्यभिचारी (विषयासक्त) होते हैं, जातिमद करते हैं, दूसरे जीवों को दुख में डालते हैं वे जीव सब के निन्दनीय (दुर्भागी) होते हैं ।

१४ प्रश्न-हे परमज्ञानिन् । किस कर्म से जीव बुद्धिमान होते है ?

उत्तर-गौतम । जो शास्त्रों का अभ्यास करते हैं और गुरुजनों के पास चिन्तन करते हैं अथवा शास्त्र सुनते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं, पढ़ने वालों को सहायता देते है, धर्मोपदेश करते है वे जीव महा बुद्धिवान् होते है ॥ १ ॥

१५ प्रश्न-हे देवाधिदेव । किस कर्म से जीव कुबुद्धिवान् होते है ?

उत्तर-गौतम । जो तपस्वी, ज्ञानी, गुणवान्, आदि की आशातना करते हैं, और ये क्या जानते हैं ? इस प्रकार जो मुख से बोलते है वे जीव लोक में निन्दनीय हो कुबुद्धि

वान् होते हैं, और दुर्बुद्धि की तरह कहीं आ-
 दर नहीं पाते ।

१६ प्रश्न--हे जगज्जीवहितैपिन् । किस
 कर्म से जीव पांडित होते हैं ?

उत्तर--गौतम । जो वृद्धों की सेवा करते
 हैं, पुण्य और पाप को जानते हैं, शास्त्र देव
 गुरु आदि की भक्ति करते हैं वे जीव मर कर
 पांडित होते हैं ।

१७ प्रश्न--हे जगदार्त्तिविदान । किस कर्म
 से जीव मूर्ख होते हैं ?

उत्तर--गौतम । जो ऐसा बोलते हैं कि-
 महाशयो ! चोरी-करो, मांस खाओ, मदिरा
 पान करो, पढ़ने से क्या होता है, धर्म करने
 से कुछ फायदा नहीं होता, वे जीव भवांतर

१४ प्रश्न--हे परमज्ञानिन् । किस कर्म से जीव बुद्धिमान होते हैं ?

उत्तर--गौतम । जो शास्त्रों का अभ्यास करते हैं और गुरुजनों के पास चिन्तन करते हैं अथवा शास्त्र सुनते हैं दूसरों को पढ़ाते हैं, पढ़ने वालों को सहायता देते हैं, धर्मोपदेश करते हैं वे जीव महा बुद्धिवान् होते हैं ।

१५ प्रश्न--हे देवाधिदेव । किस कर्म से जीव कुबुद्धिवान् होते हैं ?

उत्तर--गौतम । जो तपस्वी, ज्ञानी, गुणवान्, आदि की आशातना करते हैं, और ये क्या जानते हैं ? इस प्रकार जो मुख से बोलते हैं वे जीव लोक में निन्दनीय हो कुबुद्धि

वान होते हैं, और दुर्वृद्धि की तरह कहीं आदर नहीं पाते ।

१६ प्रश्न--हे जगज्जीवहितैपिन् ! किस कर्म से जीव पंडित होते हैं ?

उत्तर--गौतम ! जो वृद्धों की सेवा करते हैं, पुण्य और पाप को जानते हैं, शास्त्र देव गुरु आदि की भक्ति करते हैं वे जीव मर कर पंडित होते हैं ।

१७ प्रश्न--हे जगदार्त्तिविदान ! किस कर्म से जीव मूर्ख होते हैं ?

उत्तर--गौतम ! जो ऐसा बोलते हैं कि--
महाशयो ! चोरी करो, मांस खाओ, मंदिरा पान करो, पहने से क्या होता है, धर्म करने से, कुछ फायदा नहीं होता, वे जीव 'भवांतर'

में मूर्ख होते हैं और आम्रमित्र की तरह लोक में निन्दनीय होते हैं ।

१८ प्रश्न—हे वीतराग ! किस कर्म से जीव धार (साहासिक) होते हैं ?

उत्तर—गौतम ! जो सब जीवों को डरास और भय से रहित करते हैं और दूसरों के पास भी किसी को भय नहीं दिलाते, दूसरों की पीड़ा निवारण करते हैं वे पुरुष अभयसिंह की तरह धीर (साहासिक) होते हैं ।

१९ प्रश्न—हे जगजीवन ! किस कर्म से जीव डरपोक होते हैं ?

उत्तर—गौतम ! जो तीतर, कूकड़ा, लावा तोता, मैना, सूकर, मृग आदि जीवों को पीजरे में डाल कर रखते हैं और निरन्तर

सब जीवों को उच्चाट करते हैं वे पुरुष मर कर भीरुक डरपोक होते हैं और धनसिंह की तरह दुःख पाते हैं ।

२० प्रश्न--हे कर्म विभजन ! किस कर्म से जीवों की विद्याएँ निष्फल होती हैं ?

उत्तर--गौतम ! जो पुरुष गुरुके पास विद्या और विज्ञान कपट से ग्रहण कर फिर गुरु को नहीं मानते और कोई पूछता है कि तुमने विद्याभ्यास किस के पास किया है उस वक्त वे गुरु का नाम छिपाते हैं अथवा विद्या गुरु की निन्दा करते रहते हैं वे विद्याओं से रहित होते हैं अर्थात् उन की विद्याएँ त्रिदंडिक की तरह निष्फल होती हैं ।

२१ प्रश्न--हे पुरुषोत्तम ! किस कर्म से

विद्याएँ सफल होती हैं ?

उत्तर—गौतम । जो पुरुष गुरुजनों को मानते हैं और निष्कपटभाव से विनय पूर्वक गुरुजनों से विद्या ग्रहण करते हैं उनकी विद्याएँ सफल होती हैं और श्रेणिक की तरह शीघ्र पियाँ संपन्न होजाते हैं ।

२२ प्रश्न—हे जगदत्सल ! किस कर्म से लक्ष्मी नष्ट होती है ?

उत्तर—गौतम । जो पुरुष दान करके अपने हृदय में विचार करते हैं कि भेने दान नहीं दिया होता तो अच्छा था, इस प्रकार पश्चात्ताप करने वाले पुरुषों की लक्ष्मी थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाती है ।

२३ प्रश्न—हे भवेभयभंजन ! किस कर्मसे

लक्ष्मी मिलती है ।

उत्तर-गौतम । जो थोड़ा धन होने पर भी अपनी शक्ति, प्रमाण से सुपाल में दान देते हैं और उपदेश देकर दूसरो से दान दिलाते हैं उनको भवान्तर में बहुत लक्ष्मी मिलती है ।

२४ प्रश्न-हे जगज्जीवितारक । किस कर्म से लक्ष्मी स्थिर होती है ?

उत्तर-गौतम । जो २ वस्तु अपने को अत्यन्त रुचिकर हो उस को साधुओं को भावपूर्वक दे देते हैं किन्तु देकर पश्चात्ताप नहीं करते हैं उनके शालिभद्रकी तरह लक्ष्मी स्थिर होती है ।

२५ प्रश्न-हे सर्वदर्शिन । किस कर्म से

पुत्र नहीं जीते है ।

उत्तर-गौतम । पशु पक्षी और मनुष्यों के घच्चों का वियोग कराते हैं, अति पाप करते है उनके पुत्र नहीं उत्पन्न होते यदि हो भी जायें तो वे मर जाते हैं ।

२६ प्रश्न-हे महामाहण ! किस कर्म से जोत्र पुत्रपान होते है ?

उत्तर-गौतम ! जो पुरुष परम दयालु होते हैं किसी का पुत्र वियोग नहीं कराते उन के बहुत भाग्यशाली पुत्र होते हैं ।

२७ प्रश्न-हे स्वयं विभो ! किस कर्म से जीव बहिरे होते हैं ?

उत्तर-गौतम ! जो पुरुष विना ड्रुए कहते हैं कि यह तो हमने सुना है और पराई निंदा

करते हैं दूसरों के दोष निकालते हैं वे मरकर बहिरे होते हैं ।

२८ प्रश्न--हे वीर ! किस कर्म से जीव जन्मान्ध होते हैं ?

उत्तर--गौतम ! जो बिना देखे कहते हैं कि हमने देखा है जो धर्म रहित होते हैं जो दूसरों के नेत्रों को बाधा पहुँचाते हैं वे मरकर जन्मान्ध होते हैं । और वीरम पुत्र की तरह दुःख पाते हैं ।

२९ प्रश्न--हे धर्म चक्रधर ! किस कर्म से आहार नहीं पचता है ?

उत्तर--गौतम ! जो झूठा और फेंकने योग्य भात पानी साधुओं को बहिराते हैं उनके अपेचा रोग होता है अर्थात् खोया हुआ हजम नहीं होता ।

३० प्रश्न-हे भव्यकुमुदविकासक ! किस कर्म से कोढी होते हैं ?

उत्तर-गौतम ! जो शहत की मन्त्रियों के छत्ते को नष्ट करते हैं, आग लगाते हैं, प्राणियाँ और तिर्यचों को डाम लगाते हैं, वगीचों का विनाश करते हैं हरे दररतो को उखेड़ते हैं और काटते हैं, फूल फल व्यर्थ चूटते हैं वे पुरुष मर कर 'गोसाल' की तरह कोढी होते हैं ।

३१ प्रश्न-हे विश्वपुरन्दर ! किस कर्म से जीव कुबड़े होते हैं ?

उत्तर-गौतम ! जो बैल भैंसा गदहा ऊट आदि जानवरों के ऊपर बहुत भार लाद कर दुख देते हैं वे पुरुष मर कर धनदत्त

की तरह कुचड़े होते हैं ।

३२ प्रश्न—हे धर्मनायक ! 'किम कर्म' से जीव नीच गौत्र बांधते हैं ?

उत्तर—गौतम ! जो जानि कुल का मंद करते हैं, जो उन्मत्त हो दूसरों की निन्द्य और अपनी प्रशंसा करते हैं वे पुण्य नीच गौत्र कर्म उपार्जन करते हैं ।

३३ प्रश्न—हे भारतभास्कर ! कित्त कर्म से जीव दास होते हैं ?

उत्तर—गौतम ! जो जीमै जा क्य विक्रय करते हैं, जो कृत्घ्नी (न्ये दृष्ट उपकारों को भूलने वाले) होते हैं, वे पुण्य मग कर ब्रह्मदत्त की तरह दाम होते हैं ।

३४ प्रश्न—हे प्रभुवर ! किम कर्म से जीव दरिद्र होते हैं ?

उत्तर--गौतम ! जो विनय रहित, चारित्र्य और नियम हीन होते हैं, दान गुण से रहित है, मन में आर्त्तध्यान किया करते हैं, वचन से खोटे वचन बोलते हैं, काया से सावध [हिंसा के] काम करते हैं, वे पुरुष भर ऊर ' निष्पुण्यक ' की तरह दरिद्र होते हैं ।

३५ प्रश्न--हे व्यपगतकपाय ! किस कर्म से जीव ईश्वर होते हैं ?

उत्तर--गौतम ! जो दानी, विनयवान्, चारित गुण सपन्न, देशविरतिवन्त और उत्तम गुणों से सैकड़ों मनुष्यों में पूज्य होते हैं वे पुरुष ' पुण्यसार ' की तरह महार्द्धिक और सध के ईश्वर (स्वामी) होते हैं ।

३६ प्रश्न--हे कल्मषध्वंसिन् ! किस काम से

जीव रोगी होते हैं ?

उत्तर--गौतम । जो लोग विश्वासघात करते हैं, और मन शुद्धि पूर्वक गुरु के पास आलोचना (दंड) नहीं लेते वे मर कर अनेक रोगों से पीड़ित होते हैं ।

३७ प्रश्न--हे सच्चिदानन्द । किस कर्म से जीव निरोगी होते हैं ।

उत्तर--गौतम । जो विश्वासी जीवों की रक्षा करते हैं और सब पापकर्मों की आलोचना शुद्ध दिल से लेते हैं वे पुरुष भवान्तर में निरोगी होते हैं और 'अदृष्टमल्ल' की तरह सुखी बनते हैं ।

३८ प्रश्न.-हे निरंजन ! किस कर्म से जीव हीनांग होते हैं ?

उत्तर-गौतम । जो धूर्तता से और हस्त
लाघवता से कुकुम कपूर मजोठ आदि मेल
सभेल कर व्यापार करने हैं, खोटे तोल माप
रखते हैं वस्तु कम देते हैं और ज्यादा लेते
हैं वे जीव भवान्तर में होनाग होते हैं ।

१३६ प्रश्न है धर्मधराधव । किस कर्म से
जीव गूये होते हैं

उत्तर-गौतम । साधु गुणी, ब्रह्मचारी
पुरुषों के अर्णमाद बोलते हैं वे पुरुष भवा-
न्तर में गूंग अथवा तोतले होते हैं ।

४० प्रश्न-है परमेश्वर । किस कर्म से
जीव लूले होते हैं ?

उत्तर-गौतम । जो धर्माचार्यों को और
तथारूप साधुओं की पैरादिक से आशातना

रते हैं, वे पुरुष मर कर अग्निशुक्ति की तरह
मन्त्रान्तर में लूले होते हैं ।

४१ प्रश्न—हे दीप्रांशुर्क ! किस कर्म से
जीव अंगहीन होते हैं ?

उत्तर—गौतम ! जो निर्दयता से वृषभ
वगैरह के ऊपर भार लादकर फिराते हैं
उनके अंगों को छेदते हैं मर्मस्थानों में चाबुक
लगाते हैं वे पुरुष मर कर भ्रान्तर में कौर्म-
शुक्ति की तरह लगड़े (पांगुले) होते हैं ।

४२ प्रश्न—हे तीर्थपति ! किस कर्म से
जीव स्वरूपवान् होते हैं ?

उत्तर—गौतम ! जो सरल-स्वभाव वाले
होते हैं, जिनका मन धर्म में लगा रहता है,
जो जीवों की रक्षा और देव गुरु संघ आदि

वे जीव एकेन्द्रियों में उत्पन्न हो कर बहुत काल पर्यन्त संसार में परिभ्रमण करते हैं ।

१७ प्रश्न-हे मौनीन्द्रशिरोमणे ! किस कर्म से जीव दीर्घसंसारी होते हैं ?

उत्तर-गौतम ! जो जीव अजीव, पुण्य, पाप, धर्म; अधर्म, स्वर्ग, नरक, मोक्ष और ईश्वर को नहीं मानते हैं, और उन्मत्त हो अकृत्य किया करते हैं, वे पुरुष नास्तिक होने से दीर्घ संसारी होकर अनेक जन्म मरण संबन्धि दुःख देखते हैं ।

१८ प्रश्न-हे अनन्तज्ञानधर ! किस कर्म से जीव अल्पसंसारी होते हैं ?

उत्तर-गौतम ! जो जीव अजीवादि पदार्थों को और धर्म अधर्मके शुभाशुभ फलको

मानते हैं और अकृत्यों को छोड़कर सदाचार में प्रवृत्त होते हैं वे पुरुष अल्पसंसारि होते हैं और जल्दी परमपद को पाते हैं ।

४६ प्रश्न--हे परमसौख्यदायक ! किस कर्म से जीव संसार को पार होकर सिद्धपुर (मोक्ष) को जाते हैं ?

उत्तर--गौतम ! जो निर्मल ज्ञान दर्शन और चरित को धारण कर निरतिचार चरित्र पालन करते हैं और उत्तरोत्तर चरित्र की खप करते हैं वे जीव ' अभयकुंवर ' की तरह संसारसागर को तिर कर सिद्धपुर को जाते हैं और जन्म मरण आदि दुःखों से रहित हो परमानन्द सुख विलासी होते हैं ।

अन्तिम कथन

जं गोथमेण पुब्बं, तं कहियं जिणवरेण वीरेण
सव्वेहिं भावेहिं सया, धम्माधम्मफलं पयडं ॥

हमारे पुस्तकालय की सचिप्तसूच

नैम ताथजा, ओर २ जुल जो का (ममयदे) ३
और चौमासा

राजुग जी का धारहमासा

रिपम देघ जी का धारहमासा

दुगा चरित्र (एक सति की आरम कथा)

व्यापार प्रवशिका—अवश्य व्यापारियों के
पुढ़न योग्य

साधारण धर्म

लैन हिस्टोरीकल लिटरील अगरेजा नै

चतुर्दश नियमावली (१४ नियम प्रति दिन धारने
की सचिप्त विधि)

हमारे सत्रालय में सय प्रकार की छपाई बहुत साफ
और गूठता से होती है व

मिलन का पता

कानू जी माठूमस एण्ड सज

फतहपुरी दिल्ली

